



## बन्द मकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा

श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन कमिश्नर कानपुर नगर के आदेशानुसार श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन कमिश्नर कानपुर नगर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी कमिश्नर कानपुर नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चकेरी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने एवं कमिश्नरी में बन्द घरों में चोरी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिनांक 23.02.2023 को उ०नि० पवन कुमार मय हमराह उ०नि० श्री अमित यादव , का० 1706 अनुज कुमार व का० 1010 सुभाष चन्द्र वास्ते देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मामूर होकर पटेल नगर मौजूद थे, तभी मुखबिर खास ने जरिये दूरभाष सूचना दी आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभि०गण मय माल के कही जाने की फिराक में दो सडका रोड पुलिया के पास खडे हैं, यदि जल्दी की जाय तो वह दोनो व्यक्तियों को मय माल के साथ पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर उ०नि० पवन कुमार मय हमराह पुलिस बल व मय मुखबिर के दो सडका रोड पुलिया पहुंचे जहां मुखबिर खास द्वारा कुछ दूरी पर खड़े दो व्यक्तियों की ओर इशारा करके बताया गया कि यही वह व्यक्ति है जिनके पास चोरी के सामान आभूषण व पैसे हैं। सभी पुलिस बल अपने को छिपते छिपाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों के पास पहुंचे तभी पुलिस बल को देखकर दोनो संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे। औसत पुलिस बल प्रयोग करते हुए घेर मारकर दोनो संदिग्ध व्यक्तियों को समय करीब 4.30 am बजे बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम 1. अभिषेक गुप्ता पुत्र हुकुम कुमार निवासी पटेल नगर (नीरज टेलीकाम वाली गली) थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 18 वर्ष 2. विमल कुमार गौतम पुत्र राजा कुमार निवासी -राजा मार्केट मन्ना मडरिया बरगद के पेड के पास थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र -18 वर्ष बताया व जामा तलाशी से 15500 नगद व एक डिब्बे में दो जोड़ी सफेद धातु पायल एक अदद पीली धातु कान की झुमकी एक अदद पीली धातु का नाक का छोटा गोल छल्ला डिबिया सहित व एक डिब्बे में तीन अदद आधार कार्ड, एक अदद राशन कार्ड पुराना, दो चैक बुक SBI ,एक अदद SBI पास बुक ,एक अदद ATM कार्ड, एक अदद WI FI डोंगल, एक अदद छोटा स्टील का खाली टिफिन व दो अदद परिजन फोटो मय एक अदद टीन का छोटा बक्सा FOAM 260 लिखा हुआ बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 22.02.2023 को समय 19.16 बजे मु०अ०सं० 0141/2023 धारा 457/380 भादवि०

पंजीकृत किया गया । जिसमें माल बरामदगी के आधार धारा 411 भादवि0 बढोत्तरी की गयी । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता:-

1. अभिषेक गुप्ता पुत्र हुकुम कुमार निवासी पटेल नगर (नीरज टेलीकाम वाली गली) थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 18 वर्ष
2. विमल कुमार गौतम पुत्र राजा कुमार निवासी -राजा मार्केट मन्ना मडरिया बरगद के पेड के पास थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र -18 वर्ष

गिरफ्तारी/ बरामदगी का स्थान व समय:-

- दोसड़का पुलिया चौकी अहिरवां थाना चकेरी कानपुर नगर समय करीब 4.30 एम बजे ।

बरामदगी:-

1. 15500 रुपये नगद
2. दो जोडी सफेद धातु तोडिया
3. 01 अदद पीली धातु झुमका
4. 01 अदद धातु पीली नाक का छोटा छल्ला
5. 03 अदद आधार कार्ड
6. 01 अदद राशन कार्ड
7. 01 अदद एसबीआई एटीएम कार्ड
8. 01 अदद एसबीआई पासबुक
9. 02 अदद चेक बुक एसबीआई

गिरफ्तार करने वाली टीम के अधि0/कर्म0गण:-

1. निरीक्षक श्री अंजन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना चकेरी कानपुर नगर
2. उ0नि0 पवन कुमार थाना चकेरी कानपुर नगर
3. उ0नि0 अमित यादव थाना चकेरी कानपुर नगर
4. कां0 1706 अनुज कुमार
5. कां0 1010 सुभाष चन्द्र